

प्रेषक,

महिमा,  
उप सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
संस्कृत शिक्षा विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 09 जनवरी, 2019

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके क्रमशः पत्र संख्या-2288/बजट/2018-19 दिनांक 03.01.2019 एवं संख्या-2289/बजट/2018-19 दिनांक 03.01.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202-05-103-06-जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के मानक मद 01-वेतन में प्रथम अनुपूरक मांग से प्राविधानित धनराशि रूपये 500.00 हजार एवं मूल बजट में 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 100.00 हजार (संलग्न कम्प्यूटर जनरेटेड आई0डी0 में उल्लिखित विवरणानुसार) इस प्रकार कुल धनराशि रूपये 600.00 हजार (रूपये छः लाख मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय वित्त विभाग के क्रमशः शासनादेश संख्या-519/03(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 एवं शासनादेश संख्या-1432/03(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 17.12.2018 में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


2. उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवेल एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन भी कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए वह स्वीकृत है तथा अन्य मदों में कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. इस शासनादेश का संलग्नक कम्प्यूटर आई0डी0 से जनरेट किया गया है, जिनकी अलोटमेंट आई0डी0 संख्या- S1901110124 दिनांक 08 जनवरी, 2019 है।  
हैं।

5. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-519/03(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 एवं संख्या-1432/03(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 17.12.2018 में निहित प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।



भवदीया,


(महिमा)

उप सचिव।

संख्या- 28 (1)/XLII-1/2019-05(06)2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा- निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, देहरादून।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड, द्वारा- निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, देहरादून।
4. वित्त अधिकारी, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

  
(महिमा)  
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Sanskrit Education (S061)

पत्र संख्या - 28/XLII-1/2019-05(06)2018

त संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - S1901110124

आवंटन पत्र दिनांक -08-Jan-2019

HOD Name - Director Sanskrit Education (4624)

खा शीर्षक 2202 - सामान्य शिक्षा 05 - भाषा विकास  
103 - संस्कृत शिक्षा  
06 - जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण  
00 - जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	4000000	500000	4500000
03 - महंगाई भत्ता	400000	0	400000
04 - यात्रा व्यय	100000	0	100000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	25000	0	25000
06 - अन्य भत्ते	232000	0	232000
08 - कार्यालय व्यय	125000	0	125000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	100000	0	100000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	100000	100000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	400000	0	400000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	200000	0	200000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	100000	0	100000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	80000	0	80000
	<b>5762000</b>	<b>600000</b>	<b>6362000</b>

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

600000

